



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 2003/माघ 12, 1924

No. 97]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 2003/MAGHA 12, 1924

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2003

का.आ. 117(अ).—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री रवीन्द्र शर्मा, महानिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद, को उन समस्त क्षेत्रों के लिए जो उक्त अधिनियम के दायरे में शामिल हैं, मुख्य खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है। यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को उस तारीख से अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

[फा. सं. एस.-29025/4/2000-आई.एस.एच.-II]

के. चन्द्रमौली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2003

S.O. 117(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri Ravindra Sharma, Director General, Directorate General of Mines Safety, Dhanbad to be the Chief Inspector of Mines for all the territories to which the said Act extends. This Notification shall come into force on and from date of its publication in the Official Gazette until further orders.

[F. No. S-29025/4/2000-ISH-II]

K. CHANDRAMOULI, Jt. Secy.